# इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

रजिस्टर्ड ऑफिस: 'इंडियनऑयल भवन', जी -९, अली यावर जंग मार्ग, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - ४०० ०५१.

Email id : investors@indianoil.in • website : www.iocl.com

Indian Oil Corporation Limited CIN-L23201MH1959GOI011388 Regd. Office : 'IndianOil Bhavan', G-9, Ali Yavar Jung Marg, Bandra (East), Mumbai - 400 051. Tel. : 022-26447616 • Fax : 022-26447961

Secretarial Department

No. Secl/IEPF 2<sup>nd</sup> Interim -16-17

# 25<sup>th</sup> January 2024

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, 5 <sup>th</sup> Floor,	1 <sup>st</sup> Floor,
Bandra -Kurla Complex,	New Trading Ring,
Bandra (East)	P J Tower, Dalai Street,
Mumbai - 400051	Mumbai – 400001

Ref.:- Symbol: IOC; Security Code: 530965; ISIN: INE242A01010

Sub: Newspaper advertisement of the Notice to shareholders of Indian Oil Corporation Ltd. — Transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Dear Sir,

Please find enclosed herewith the advertisement published in Times of India, Economic Times and Maharashtra Times on 25<sup>th</sup> January 2024, informing shareholders about the proposed transfer of equity shares to the IEPF Authority in respect of those shares on which dividend has remained unclaimed for seven consecutive years or more as per the provisions of the Companies Act, 2013 and rules notified thereunder.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares due for transfer to IEPF on its website <u>www.iocl.com</u>.

The above is for information and record please.

Thanking you,

Yours faithfully, For Indian Oil Corporation Limited

(Kamal Kumar Gwalani) Company Secretary



# Companies: Pursuit of Profit 📶



# Tata Steel Back in Black, Posts ₹522-cr Profit in Q3

Robust India performance helps offset subdued COMMODITY PRICES

demand at co's butch and British operations or super super

Bajaj Auto Share Price on BSE (r)

Place : Mumbal Date : January 23, 2024

Date : 24th January 2024

tion and encortiention (EBITDA) Sold corrections of the 50% on your to fold the processing of the solution of the source of the constant of the solution of a solution of the so

SCO Intends to develop a District Cooling System (DCS) is this context, T DCO proposes to exist a consulta-tion economic vability study and providing transaction. the development of District Cooling System at Hell level intended from to earlier proposals for undortaking withed in the Tender document. Intech City Interested in the trender occurrent. Interested firms can download the Tender from the websi-rides/hilde.com & hitse://mtenders.gov/n. tips Midda com & Higs Unincens povini The obtailub the Midding process is a follows: -. Pre-bit meating at 340 PM on 46.02.2004 https://doi.org/online.v0 Last date and time for sobritistics of Physical Statis is on or before 3.00 PM on 22.02.2024 https://bithstdors.govin Objecting of Technical PhosessioNish is et 3.34 PM on 23.02.2024 at TECCO Office Management Director

Iami Nadu Industrial Development Corporation Ltd (TIDCO) is: Fintech city in Nandembekkam, Chennai, As a part of the de XCO imends to develop a District Coping System (XCShin Firm

TIDCO Office Managing Director Tan Nedul Inclusifiel Development Corporation Limited 19-A Aurim Lahamitatin Hoad Eprinty Charnel – GD 000 Hone – 91 - 92 200 4028 Evelopment Science June Revend Materia com Webliet, Internetido com D IPR/387/D/SPLAY/2024

# FOR FIRST TIME CO'S PROFIT ZIPS PAST ₹ 2K-CR MARK IN A QUARTER Bajaj Auto Q3 Profit Jumps 37%, Beats Street Estimates

Better product mix, strong sales of 3-wheelers and

<section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text><text><text><text><text>

# Nearly 18-fold to in Q3 Profit at ₹648 cr ₹8.063 cr in O3

### Our Bureau



<section-header><section-header><text><text><text><text><text><text>



unoe metudos. For any clanifaction on the matter, please contast Mr. Bhæskar Roy, KFin Technologies Ltd. Selenium Tower B, Pildin umber 31 & 32, Financial Jistrict, Narekramgudo, Hyderabad – 50032 Tol Free No. 1900 3094401; F. Funil Address: Linward ring@Kfinfuteh.com For Indian Oil Corporation Limited

Place : Mumbai Date : 25" January 2024

Sd/-(Kamal Kumar Gwalani) Company Secretery

7211.40

<u> 3liss</u>

**BLISS GVS PHARMA LIMITED** 

CIN No - L24230MH1984PLC034771 Registered Office: 102, Hyde Park, Sakinska Road, Andheri (East), Mumbai - 400 072. 022-42160000 • Fax: 022-28563930 • Email: info@blissgvs.com • Website: www.blissgv

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023

			STANE	ALONE					CONSO	LIDATED					
		Quarter Ended		Nine Months Ended Year Ended		Year Ended	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended				
Particulars	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2122	31.12.2023	31 12 2022	31.03.2023	31.12.2023	30.03.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023			
	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UII-AUDITED	AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	UN-AUDITED	AUDITED			
Total income from Operations (net)	16,923.13	18,192.88	18,021.48	46,587.90	49,920.80	64,910.58	20,614.12	22,447.89	21,138.35	59,525.45	58,151.70	76,937.39			
Profit.before Tax	2,852.06	4,606.57	3,989.05	8,549.09	10,724,85	11,569.22	4,004.49	5,912.98	4,743.28	12,082.05	10,682.19	10,607.16			
Net Profit for the period	2,072.00	3,389.02	2,928,00	6.210.57	7.037.20	8.547.86	2.907.25	4.314.44	2.978.83	8.649.14	7.326.99	7.673.48			
Tetal Compidhensive Income for the period	2,061.87	3,330.90	2,915.78	6,194.68	7,879.72	8,481,24	2,739.96	3,679.33	3,841.73	7,351.71	7,344.42	7,035.33			
Equity Share Capital	1,046.91	1,043.99	1,041.53	1,046.91	1,041,53	1,041.53	1,046.91	1,043.99	1,041.53	1,046.91	1,041.53	1,041.53			
Other Equity	98,861.44	96,716.32	91,966.07	98,861.44	91,966.07	92,668.33	94,650.70	91,957.43	88.076.80	94,850,70	88,076.80	87,348.16			
Earrings Per Share (Not annualised)															
L Basic (f)	1.99	3.25	2.81	5.96	7.63	8.23	2.64	4.06	2.68	8.11	6.49	6.83			
i. Diluted (8)	1.95	3.19	2.76	5.85	7.51	8.10	2.60	3.98	2.64	7.97	6.39	6.73			

(1) The above is an extract of the citated format of the Standalore and Consolidated in and a results for the Quarter and Nine months ended Decomber 31, 2023 and Annual Result for the Year ended March 31, 2023 Heat with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SERI (Listing Obligations and Disclosure Regulations, 2015). The figures for the quarter enced December 31, 2023 are the balancing figures between straudited figures in respect of the nine months ended December 31, 2023 and the published year to date unaudited figures for the half year ended September 30, 2023 of the respective financial year.

(2) The full format of the Standalove and Consolidated Hanchi results for the Quarter and Hina Months ended Document 31, 2023 includive of aciditor comments in adong with munagement response Tencons wells for a Annual Results full the Financial year ending March 31, 2023 are available on the Stack Exchange netted and sown residence annual on the Company's vehicits wave Missays com (3) The results have been prepared in accordance with the indian Accounting Standards (ad AS) as prescribed under section 183 of the Companies Act read with relevant rules is see there exists

## For BLISS GVS PHARMA LIMITED

TVS

Chairman

SD/-GAGAN HARSH SHARMA MANAGING DIRECTOR DIn No : 07939421

# TVS MOTOR COMPANY LIMITED

z Khan Road, Nungambakkam, Ch (44) 28332115 Email:contectue@

### STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31<sup>ST</sup> DECEMBER 2023 (Ps. In Crores) . . . . . . . . .

- 1			Standalone Quarter ended Year ended			Consolidated		
S.	Particulars				Quarter ended		Year ended	
No	Particulars	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023	31.12.2023	31.12.2022	31.03.202	
			dited)	(Audited)	(Unau	dited)	(Audited)	
1	Total income from operations	8.318.41	6,551.91	26,478.66	10,125.82	8,075.06	32,111.99	
2	Net Profit / (Loss) for the period ( before Tax. Exceptional items)	775.02	475.47	2.003.37	750.23	464.55	1.937.90	
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	775.02	475.47	2,003.37	750.23	463.84	1,936.03	
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	593.35	352.75	1,491.03	509.61	303.64	1,309.46	
5	Total Comprehensive Income for the pariod (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income / (Loss) (after tax)]	604.41	368.56	1,463.35	540.26	378.48	1,368.74	
6	Paid up Equity share capital (Face value of Re.1/- each)	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)			8,000.34			5,457.49	
8	Security Premium Account			- NOT APP	LICABLE			
9	Networth	7,615.14	5,881.98	6,038.35	6,744.77	5,350.71	5,422.78	
10	Outstanding Debt	1,162.83	1,537.27	2,010.23	23,360.48	18,705.37	19,775.04	
11	Outstanding redeemable Preference Shares	- NOT APPLICABLE -						
12	Debt Equity Ratio (Times)	0.2	D.3	0.3	3.4	3.4	3.6	
13	Earnings Per Share (Face value of Re. 1/- each) (not annual sed) (i) Bapic (n Rc.) (ii) Dituted (in Rs.)	12.49 12.49	7.42 7.42	31.38 31.38	10.08 10.08	6.33 6.33	27.97 27.97	
14	Capital Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -						
15	Debenture Redemption Reserve			- NOT APP	LICABLE -			
16	Debt Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary) (Times)	2.1	5.8	5.0	0.9	3.5	2.9	
17	Interest Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary) (Times)	18.3	18.0	15.2	9.6	8.0	6.2	
18	Current Ratio (Times)	0.7	0.7	0.6	1.1	1.1	0.9	
19	Long term debt to working capital (Times)			-	2.3	2.8	3.0	
20	Bad debts to Accounts Receivable ratio (Times)					-	-	
21	Current liability ratio (Times)	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	
22	Total debts to total assets ratio (Times)	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6	
23	Debtors Tumovar ratio (Timos)	28.7	26.8	27.0	27.5	26.8	26.3	
24	Inventory Turnover ratio (Times)	17.8	17.5	17.0	11.6	12.1	11.7	
25	Oparating Margin (%)	11.2	10.1	10.1	10.4	9.1	9.1	
26	Net Profit Margin (%)	7.2	5.4	5.7	5.0	3.8	4.1	
00	e: he above is an extract of the datalied format of financial results field of logitations and Disclosure Requirements) Republicins, 2015. The full of the second second second second second second second second www.beerrdis.com and www.rseindia.com) and on Company's website (m gures for the previous periods have been regresped, wherever necessary	ormat of the ww.tvsmotor.	financial res .com).	uts are avail	able on the : ification.		nge websit	

# IOC Profit Rises DLF Posts 26% Rise Our Bureau

Or fureral New Deliki LLP on Wolcascher postel a 18%, risk inforceber:beember net profit besettings the sensary sepreted an et profit besetting The sensary sepreted an et profit of 640 co-ton of 640 co-parent of 640 co-parent



## PM Modi to virtually interact with 1 crore 1st-time voters today

Abst. New Delhi: Prime Minister Narenden Ma-di will contact with more than one crore first time voters on National Works' Dayon Thursday through virtual interaction at 500 camps to be or gaacross the country. Announcing the initiative, Ibaratisa Janab Wan Morenta, BirNB president Te-Javi Sury said there is excitement among the country's youth for a thirdertem for Mo-

# Promising fair polls, CEC says 'parties must inspire, not divide'

'parties must inspire, not divide' White assing a low-f-dividified in the upcoming owner also than a click the approximation of the particle parties the maintain a discourse that many second and the second owner that the encycled address. Inter well a state whether and accessible levels, there, this and induces mere free general electrics. In the mon anter it like an imaginary aligned by the begins and proteins the constituents in the owner a stake and a mongoisse referring to the general electric maintain and the second well began and an optionse constituents in the discrimination of particle states and the well began and an optionse constituents in the discrimination of particle states and the subsequent needs the integration and the particle and the discrimination of the particle states and the discrimination of the states and the second the discrimination of the states and the subsequent needs the integration of the states and subsequent needs the integration of the inspection of the second the many states and the states and the subsequent needs the integration of the integration of the second the many states and the states and the second the many states and the states and the second the integration of the states and the second the second the many states and the states are an an advected as not the states and the second the states and the states and the states and the states and the second the states and the states and the states and the states and the second the states and the states and

## ATS arrests 32-vr-old Nashik engineer for 'sending funds to ISIS'

Schuling futures to 15:55 shift: Malsorabirs Anti-Ferrursen Span Statuta resolution by its additional form Statuta resolution to its is additional form Statuta resolution to its is additional form Statuta resolution to its is additional form Statuta resolution of the statuta of the statuta shift additional form and the statuta of the statuta and till Janza. Three statutions revealed that the surgest Head Statuta of the statuta of the statuta in the statuta of the statuta



including motion particular da. https://www.communication.com/ anting.documents in the source of the test bad arrows multiple states in the country ATS releases said. Publics processories Anni Miare and "ATS" publics processories Anni Miare and "ATS"

Public protecture Anii Miane and "MTS minial investigation revealed the Shalksh had seen funding BSS since MB." The cited the pro-adment of the MS shalksh had been in to-she with a norman in System Anii and the sense of the second second second second second in the second second second second second in terms to the decay interaugh here or used to route the funds through other class-tic second second second second second in the second are regardly the function of the second second ATS lappedding the compliance accurated was decing with the heart reviews and second sec



# ARMY LAW COLLEGE, PUNE

The Council of helis & Govi of Matumatica) ADMISSION NOTICE: 1<sup>st</sup> YEAR BBA LLB / BA, LL B (5 Years Integrated Course) 2024-25 (for Words of Serving & Refired Army Personnel Only) Her Werdhind Barrands Bittefind Arary Personnet Umyy Any Lao Chells. Pare in a fair technique faithfuid of ME3 located in a petere 14 size billy residential Carsa at Kome Direct Here Laonals Registration for a cells and and the LLB 5 Years CEI 3224 (contrained by Carl of Manazakes ) as open up in 116 a 3224. Exceeding the MELLB 5 YMARS CI 3224 is display 1244. Candidates must first register an CET peter Hay 2024. Candidates provide same fair and patients to Arry Lao Coleys. Pare Transp. email to administration for Arry Lao Coleys. Pare Transp. email to administration and carge of Department Offen an syldenki. I'Yan FALU LB XLLB (Year Hayster Offen an syldenki. I'Yan FALU LB XLLB (Year Hayster Chem. syldenki. I'Yan FALU LB XLLB (Chelliphie Numhers-91685135502(MatsAcg) and TS27521747 email: administrationalizame@gmail.com (Mc.Cansel.appa.Bashman)

(Mr. Ganeshappa De Principal-in-Charge

(b): Current pope Distribution Provided Control (Control (Con

Registrer, ARES



19 days after attack, ED raid

IT US LAW lates in the Suphome C The Astala containing eligibility conditions etc. can be deviateded from the detailed advertoevent and the "Behavior of Engings Law Carlo cours Research Associates on Short-Term Centrodual Assignment in the Supreme Court of India-January 2020 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Website of Supreme Court of India-January 2021 - Socialdece the Supreme Court of India-January 2021 - Social Court of India-January 2021 - S Place : New Delhi PT. Ladekari Date : 34.91.2024 (Repsilter (Recolline))

Governor's Secretariat, Rajbhavan, Raipur (Chhattisgarh)

Governor's Scotlands, Rabinson, Rappur (Chronologuet)
Molae Indfas geptations for applications for applications
in the Consequence of the Consequence of

UNIVERSITY OF uncertained at the president new Applications exceeded at this Dependence Index. The Applicant has to computery submit a Hot learning at the attentions and particulars form certifying at the attention and particulars form



violations on 'critical routes'

राष्ट्रीय मास्स्यिकी विकास बोर्ड WALK IN INTERVIEW NOTIFICATION INTERNAL of a state of the set of

 Terrical Consultant Strategy or Uncounted Wildows
Terrical Consultant Strategy
To Tartical Consultant Strategy
To Tartical Consultant Strategy
to 0.0022024 Generative
Terrical Consultant Strategy
to 0.0022026 Bindemarkov
Ter detaining bits; oriens for the post and application proforms, pleases with
washed in too; UntilDoga/20
Gel (Sdi-) Senior Executive (F&A)

N34 ODISHA JOINT ENTRANCE EXAMINATION - 2024 (OJEE - 2024)

Odishs Joint Entrance Examination (OJEE) - 2024 will be conducted during 6°, 7°, 8°, 9° and 10° of May, 2024

Please note that Outside State candidates are not alighte for admission in Go dense. For they are start to for advectory in Physics Catalogs on or Orists Catalogs

For other datalis, plaque visit sur website: warw plan siz in / warw polisitation.com

Sidi-CHAIRMAN, OJEE Oclisha

TVS MOTOR COMPANY LIMITED TVS

FOR THE QUARTER ENDED 318T DECEMBER 2023

		Standalone			Consolidated		
8.	Particulars	Quarto	rended	Year ended	Quarter	ended	Year ende
No	Parocaura				31.12.2023		
_			dited)	(Audited)	(Unau		(Audited)
1	Total income from operations	B.318.41	6.551.91	26,478.66		8.075.06	32,111.99
2	Net Profit (Loss) for the period ( before Tax, Exceptional items)	775.02	475.47	2,003.37	750.23	464.55	1,937.90
3	Net Profit ( (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	775.02	475.47	2,003.37	750.23	463.84	1.936.03
4	Net Profit ( (Loss) for the period after tax (after exceptional items)	593.35	352.75	1,491.03	509.61	303.64	1,309.46
5	Total Comprehensive income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive income / (Loss) (wher tax)]	604.41	368.56	1,463.35	540.26	378.48	1,368.74
6	Paid up Equity share capital (Face value of Re 1/- each)	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51	47.51
7	Reserves (exclusing Revaluation Reserve)			6,000.34		-	5,457.49
8	Security Premium Account			- NOT APP	LIGABLE		
9	Networth	7,615.14	5,881.96	6,038.35	6,744.77	5,350.71	5,422.76
10	Outstanding Debt	1,162.83	1,637.27	2,010.23	23,360.48	18,705.37	19,775.04
11	Outstanding redeemable Preference Shares	· NOT APPLICABLE ·					
12	Dabt Equity Ratio (Times)	0.2	0.3	0.3	3.4	3.4	3.6
13	Earnings Per Bhare (Face value of Re. 11- each) (not annualised) (i) Basic (in Rs.) (ii) Dikted (in Rs.)	12.49 12.49	7.42 7.42	31.38 31.38	10.08 10.08	6.33 6.33	27.97 27.97
14	Capital Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -					
15	Debenture Redemption Reserve	- NOT APPLICABLE -					
16	Debt Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiery) (Times)	2.1	5.8	5.0	0.9	3.5	2.9
17	Interest Service Coverage Ratio (Excluding NBFC Subsidiary) (Times)	18.3	16.0	15.2	9.6	0.0	8.2
18	Current Ratio (Times)	0.7	0.7	0.6	1.1	1.1	0.9
19	Long term debt to working capital (Times)				2.3	2.8	3.0
20	Bad debts to Accounts Receivable ratio (Times)						
21	Current liability ratio (Times)	0.5	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7
22	Total debts to total assets ratio (Times)	0.1	0.1	0.2	0.6	0.6	0.6
	Disblors Turnoveriratio (Times)	28.7	26.8	27.0	27.5	26.8	26.3
23		18.0	17.6	17.0	11.6	12.1	11.7
_	Inventory Tumovor ratio (Times)	17.B					
24	Inventory Turnovor ratio (Times) Operating Margin (%)	17.8	10.1	10.1	10.4	9.1	9.1



A ministry of Health and Family Welfare Government of India Al the NEET 85 2023 sitults candidates are healty informed that to prevent weakage of process matcair seals, the competent sub-try has declar to conduct a Special Round bet variant seals are weaking to the sub-try informed that to prevent weakage of the sub-try information of the sub-try informed that to prevent weakage of the sub-try information of the sub-try Al the condition holds were the sub-try information of the sub-try NEET 55 scars for the sub-try information of the sub-try information of the sub-try Special Round of 88 coverseling 2023. The Boardy Deposit of and dates who do not join the altotted seal in Special Round will be forbats.

Medical Counselling Committee (MCC)

- Toward. Considerate who reaconed their allotted seats in Round-1 & Round-2 to join so IM-56 occurselingues hot Egiptis' to partogote. Detaints regardings schedularisteme and registility for Special Round of 25 Cours will be made aveilable al **servor.csc.nic.kr**. Kindy stay in louch with websit partons. Office of NCC Indianda

Indian Oil Corporation Limited CIN - L232013/H19599GO1011388 van, O.G. Ali Yever Jung Merg, Bandro (East), Mumbei-400 051. Regd. Office: IndianOilBha Tel No.: 022-25441327 NOTICE TO SHAREHOLDERS TRANSFER OF FOULTY SHARES TO INVESTOR FOUCATION & PROTECTION FUND

TRANSFER OF EQUITY SARABLE TO INVESTIGE EDUCATION A PROTECTION FULUE The Malois is provided in this providence of the Conservation Act, COST read with the Investor Educations and Protection Fund Automotively (Accounting, Auto), Fransfer and Refund Refue, 2014 (UPF Hanks) has enceded to Unitarias Is in accounting and action of the Conservation and Auto, Conservation, Auto, Interview and Refueld Refuel, 2014 (UPF Hanks) has enceded to the Investor Education med Protection (Investor and Refueld) Refuel account and accounting accounting and accounting and accounting and accounting and accounting accounting and accounting accounting and accounting accounting and accounting ac High, Rock combinements of sequiptics early the table is the table to be transferred to the factors a tensory base to all such table to be transferred to the comparing the table table to be transferred to the table table to the table table to the table ta

akar Roy KFin Te nakarnguda, Hyde er trevance. • any clerification on the matter, please contact Mr. Bhas ensum Tower B, Pitchnumber 31 & 32, Financial District, Nan Free No. 1805 309 4001 (E-mail Address: einwand nisgithte

For Indian Oil Corporation Limited

Place : Mumbei Date : 25° January 2024

8d<sup>1</sup> (Karnal Kumar Gwatani) Company Secretary

# Air India fined ₹l.lcr for safety

# Kufft: Directorate General of Civil Aviation (GCA) on Weldsnady in both for any set of the set of the set of the both for any set of the set of the set of the former set of the set of the set of the set of the former set of the set of the set of the set of the former set of the set of pency-use experimentation of sime constituting that more was no compro-pency-use experiments and the constitution of the spectra of the spec



NOTICE FOR ONLINE APPLICATION FOR OJEE - 2024

For advectage to the second se

The Enfrance Examination will be conducted in reputer Based Test (CBT) mode for all the courses as mentioned at

Compare assess into (call) mode for all the controls as methods allows. When the call calls devices an adviced to fill up the magnetice application France centre through OSE workship (calls and calls of the advices). This applies of OSE and particular through OSE workship Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and will not on 15° Mercet, 2006 Registron 55° controls, 2006 and 2006 and 2006 Registron 55° controls, 2006 and 2006 Registron 55° con

roll CURE android App from Google Piley Store for latent information and notices.

Por Advisorian to & Techill Anable, Nachine, MSC and MIBSS BOSS 64/4/SGMMS courses a phramed Growmenn and Phrade Calugase of Olishin, confidence have to agree the (NMM-254) VMET SVID-104 Constants of Antoneous Hasking Agrees, (Soi Cel Aldol and Tech Advisories to PG searce of Alexandry Agravedto candidates to agree and Advisories to PG searce of Alexandry Agravedto candidates to agree Advisories of Advisories to Advisories and Advisories (Marcola Calumenter).

099.1482011 9820 2334

# CIN 1 30 STATEMENT OF STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS

comparison and comparison that in the a michally another bank: that in the a microward at any sloge, mp ages our musity experient. CB — IF I are already appointed, my services are liable to be terminated exitical as notice transfer past of You-Chancellor as per Acts / Seculae etc. and ether applicatio zano liver. The presenteed flow as of application is available at the toll avoing websites of 1. Infps. Institute and application is a state of the state of the 2. Higs flower speking goals in 3. Higs flower speking goals in 5. Butfpoliweik.dprzg.gov.in Skit-Kasinskary (a Canarnar Rajbhavan, Ralpur (Chinetio-parti) 0-47301/5

## महाराष्ट

# दप्तरांत नशेच्या गोळ्या

शालेय शिक्षकांनी पोलिस अधिकाऱ्यांसमोरच व्यक्त केली चिंता

## स या प्रतिनिधी त

शाळकरी मुले नसेच्या विळयजात अंडकत जालतो आहेत. शाळेल्या आसयस असलेल्या पान दपऱ्यांमभून ई-रियामेट, पुटाक्का, तंभारक्षुबच्य पदार्थासट डूप्त्वाची विक्री होत असून इप्ता तस्कर परियुगत बबर बादला आहे. तस्कर भारतभा बावर वाढेला आह. तरवस उत्पंता इरण उत्पतात. अभ्यस् उत्ते इम्यकडे वळू लागली आहेत. पुरब्धाय इनरावंगध्ये नरोभ्या पोळ्या, पुरब्धाय्या पुतवा, सिंगारेट आठळत आहेत्, असे वाचे शहरातील् विविध आहम, अस दाने रहरताला वाव साळांचे मुख्याध्यापक, शिक्षक सामाजिक संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांन येट यरिष्ठ पोलिस अभिकाऱ्यांन्य



📕 महाराष्ट्र टाइम्स। प्रतिक्रिपेसाठी mtantarc@gmail.com

खणे शहरातील शाळा, कॉलेनचे साळवि मुस्टाम्प्रानस्त, शिर्थस्, उमी महराइति, माळा, सतित्तं भ प्राप्ताकि संस्थाणा पर्रतिस्वाच्यों मा प्राप्तारु वार्थम्, मुख्य प्राप्तारु, ज्वाराचे स्वेत गाँठ पर्राप्ता प्रार्थिति साळांगप्ते प्राप्तिरुपारं वार्यस्तित ४- साडरणच्या मुर्गेति प्रेड प्राप्तार्थम् वार्थस्वरा ज्ञाने होते त्यायेत्री प्राप्तान् का व्यत्तवन्ते पर्रेष्ठ कारी प्राप्तार्थं वार्यप्राप्ता होते त्यायेत्र पिर्णस्त वेतित उपिरुपार्वपर्वपरि प्राप्तीप्रंत्र वार्यप्राप्ता होते त्यायेत्र गिर्णस्त वेतित उपिरुपार्वपर्वपरि प्राप्तीय वार्यप्राप्ता प्राप्ता वेत्रत्र पुर्वपर्वपरि प्राप्तार्थवं वार्यप्राप्ता रार्यप्राप्ता होत्या रोतिः प्राराजनवाद्वी वार्यचार्त्त व्याप्तीलं प्रतिव राष्ट्रता वार्यप्रति होत्रा नेत्रां ने प्रातानवाद्वी वेश्वीत एक होत्सप्पे केले या पुर्वना जवादत्वी प्राप्तां का स्वलन्त स्वा

पनवेल महानगरपालिका 圆 K ता. पनबेल जि. राबगढ -४१० २०६ द्रावनी कर्याना स्टान् अवद्भारा साथा १९२२ विका वयुवा गर्भना - १९२० २३२१ उद्धान हे मेरे - parveloopention@gnaticen का करण्यात्मार्थ्य (१८२९ व.स. २४ - २०२२ - -: जाहीर सुचना :-विका से : ०११-२४७७,२२३३ उत्त्रुवा वार्यात्रवः -१२२-२७४५ विद्यार्थिः www.pasveloope दिनीक २ र्वल महानगरपालिका क्षेत्रात्रेल नजरीकांन पर्यावरण जनवागृती निर्माण कर पणित पाराणणारिका शिवाल प्रत्योका भरत पाकारण मानवाडुता मामल अपरान (Februiania and Supply of ICC Vechicle Mounta on EKAK K & Equivalent Cabin Chassis ) केंग्रेने करने सांगर तर्ग Warmany + स्वर्ण क रेडावल प एक्स (AMC) नरकोश्वर्ण के कार्यों भेज्यापक वाणिजवानीता खत्र मामू केरोपण आवेकनेता ई त्रिवत मानविष्णत के तरंग OF EKA K 8.4 0 नग दर (GST सह व मध्रं करांसदीत) जक. कामाचे नाव प्रवेश वहानगाचरिका सेवर्कत गामरेकले मध्ये पर्वारस जगवरणी निर्माण वरणसाहि (Fabrication and Supply of IEC Vachicle Mounted on EKA K 14, or Equivalent Cabin Chassis' खोचे जाने संस्थ कर प्रि Warnast + 3 कर्ष करेत देखातन व पुरस्ती (AMC) करनेवनन. 09

या निविदेशवनाचे महिनी सालनाचा www.inahatenders.gov.in या संवेशासम्बद्ध हि. १५/२९/२२४२ ते २८/२२/२२४४ येचे दुष्परी २३.२० याने पर्यंत उपलब्ध तेवंत, संबं निषिदा भारकांचे याचे मोट व्यव्यी.

सही/-अग्निरका आचुका आय.एम.सी. ऑफ आय.डी.आय. गोवंडी, मुंबई उपनगर, मुंबई- ८६

# ई-निषित्रा सुचना क्र. २/२०२३-२०२४

र्ड विविध संपुरत्य अ. २/२०२२ – २०२१ आप. एष. सी. ऑफ आप. टी. आप. गोमंदी, मुंबुद - ८६ मार्फल मीगीमे दुर्स आं. मार्फरेश का बाढ करने वा सातानामांत इतर को जन्मेतुत प्राप्त भिष्ठीं कुन विदेश मुत्तनीकरनामे / तुरुरतीये काम मण्डमासांती मुंजापुर मार्फायमा देवा ताहे. निविदेश ग्रांती का जातानामांत वर दि स्थाल. प्राप्ती में व्याप्त के निविध मार्गित प्राप्त विद्या मारामांचा संतीन. हे निविध संवीची से वा सातानामांत वर्ष्यों व स्वाय करना रोजीन. हे निविध संवीची से वा सातानामांत वर्ष्यों व स्वाय करना रोजीन. हे निविध संवीची से वा सातानामांत वर्ष्यों व स्वाय करना राजेमरामांत्र स्वाय संवीची से वा सातानामांत वर्ष्यों व स्वाय करना राजेमरामांत्र स्वाय किस (ना पराताना) व स्वाया करम अंग्लाइन त्वीकरतनी वाईन व निविध प्राधिनेत नाम पेच्यासाठी है निविध प्राप्तानेत्य वे स्वाद्दिव्य गांध्रिय/mahaadandara.gav.in वा पेटलव गोंध्रमी वाल्य का आवस्य आप.

आहे . यभीत निविदाष्या सुपनेत प्रक्रम रु.२७.१० लक्ष (अंदाले) पर्यत कामे समाबिष्ट असून या निविदा सुपनेवरील सर्व माहिती भ्रत्याहर उपलल्ध करून देण्यात आलेली आहे.

राचिव/ अध्यक्ष त्मसी ऑफ आयटीआय गोवंडी, मुंबई उपनगर, मुंबई- ८६



## कारवाई केली जाईल

कोरी राष्ट्र करना जाडून असान कारा प्राप्त प्राप्त कार्म के वर्ष मुंची के का होता न स्वयंज्यों सबस, कतियभे सिक्षक, प्रत्निकार्थ पंना चेवलाने होते, तेवा आयो खेलिस कार्य पंजयास सम्पत्त्व के स्वयायकार्टी एक सिक्रान्यका पोलिस अशिकार्याची निष्ठुली सेतरी होती. या अधिकार्यकार पुलेस प्रति की तर साथी न्यन रोगे व्हल्व्या हुए सम्पायस के बानी मिन्नून स्वयन्त कार अध्यारक आहे. तुम्ही आव्याना युवना, पोलिस अग्र आयो क्लां के स्वयायक आहे.

चोलसम्पर्धे बेठ खेरे, उसरे पॉलिस्सी सिंध्यकेने माठाई एक प्राप्त सुनि पानेन जुनेत्राग रेखना, आपक अयुन त्या गाठेस्य मेरे उपलब्ध विडायका सार्वे अमे दिवसे जोतने वी, नेधे गेरवार सार्वे अमेरे विस्ते प्रेतने वी, नेधे गेरवार आत्र के प्रत्या निप्तान्म के तिराध्य आत्र प्रत्या निप्तान्म के सार्वे के प्रत्या प्रत्यान्म के सार्वे के प्रत्या प्रत्यान्म के सार्वे के प्रत्या प्रत्यान्म के सार्वे के प्रत्या के प्रत्यान के सार्वे के प्रत्या के प्रत्यान के सार्वे के प्रत्यान भाजन्मरी मुले सिगारेट ओहव अपूर मुर्वाच्या एक्सलाई सिगारेट गुरुवरव्या प्राह्म अस्तात से प्राप्ताः यह उठव्या वार्व्याच्याता रीप्राप्तां ही प्राप्ता प्राप्ता के राजां का प्राप्ता प्राप्ता सिंग्रा से प्राप्तां अस्ताता है प्राप्ता के प्राप्ता का प्राप्तां अस्ताता है प्राप्ता के प्राप्ता का सिगारंट साराज्यमा तो कि आपनी प्राप्तां के राज्याता है। स्वार्व्या के राज्याता है। स्वार्व्या क्लांका हो के अपूर्ण वाद्या प्रतियं भाराज्यमा, इंडलेग्या प्राराता स्वार्व्या क्लांका हो के अपूर्ण वाद्या प्रतियं भाराज्यमा, इंडलेग्या प्राराता करवा, अदम कारण्या मुख्याध्यावरु हिविश्व आराती स्वार्ग्या वाल्याको हेवल्या. बोलचम्पाची केळ येते, असी परिस्थिती शाळकरी मुले सिंगरेट ओडत असून

		1		
Mari e-Ten	harashtra State Agricultural keting Board, Pune (MSAMB) Ider Notice (Second Call)	'विज्ञा म. या. प्रतिनियी, संगं	न कथेला महाराष्ट्र•टाइम्स	सांस्कृतिव
storage capacity 10 Maharashtra, Estima	nder for Construction of 7 Godowns having its too MT each in various APMCs in the State of ated cost of said work is Rs.886.46 Lakhs. fisit www.msamb.com and	विज्ञान हे वैश्विक आहे. त्याचे संदर्भ बदलत नाहीत. मात्र विज्ञान	मीडिया पार्टनर	REAS
https://mahatende		कचेला सांस्कृतिक संदर्भ असतत. त्याला मात्रीया नंध असतो. त्यामुळे जागत्विक चित्रान साहित्य आणि	लेखक डॉ. बाळ फोंडके यांचे मत	
पाणी स्व. इतिय गांवी भ बा.ज. मनव/वायु व मसनि// विंग्रेस सुबन च विंग्रेस इय 29/01/2024 में दि 12/22/	// जाहिर निविध्य सुधना // हरोना जिलेव बायास्वरी ओगरादी गांतिवा मार्गलेषेत्र येत आहेत. (१९२२ प्रेसी १२.८० प्रायेश्वरी जातिवा प्रार्गलेख प्रदासर दि. १२२२२ प्रेसी १२.८० प्रायेश्वरी जातन्त्र एतत्रार आहेत. स्वय्यः त्रा संवेत स्वरूपर दि.१७७/२२/२२४ रोजी दुपारी 1.८० प्रायेश्वर्य	भारतीय विज्ञान साहित्य मंत्री तुलन करने प्राप्य होन करें, असे मन लेखक सी. स्वट फोर्डक मंत्रे प्रथम केने. मत्यदी नजब किंगे, राज्य नयदी नजक संस्था अगि किंग स्विथन प्रथम अगिलिक मार्ग् बचा स्वयंन प्रथमजानी मार्ग् बचा स्वयंन प्रयोजन करणवा साहित्य में द्विप्यस्थ की निराहन सार्विय्य में द्विप्यस्थ की निराहन सार्व्यक्ष स्वयंक्र करणवा आले होते. यामध्ये सेवल दी.	स्वय संदर्भ, लेखन सुबंध प्रायर्थेश, तेश्वर जानंद पीसम सरसाणी इसते होती. स्वयर्धकाणी सुवाते राजीव्यता सातंत यांचे केले. या सार्वाव्यता स्वयंद्र प्रायंत्र प्रथा प्रायार्थे स्वयंद्र द्वारा क्वंत स्वयंद् स्वयंत्रा स्वयंत्र स्वयंत्र स्वयंत्र स्वरंभावना अवसंत, तरी स्वरत सर्वसंतर्भ अवसंत तालां, आंधी स्वरंभने स्वयं तालां, आंधी	सहित्याल यावकपिसुराज अन्यता हत्री, त्यंव जितानतील सरोक ठराता पांची पाठी प्रथा आजान, दास आह रह नये, वाठी जाराता पार्वी जाता होते से कार्य साम्राज्य कार्य कितानील राके क्या साम्राज अस्ति का प्रजीत रायत के अन्यों कार्य, अस्ते का विद्यान कांग कार्यों, अस्ते का विद्यान कांग कार्यों, कार्यों, का विद्यान कांग कार्यों, कार्यों, कांग करने करने वारण सिंहा नयेत करने वारण्ते वार्यों वार्यों, वार्य
दिनांक :- 23/01/2024	माहर अभिकता मिरा-भाईदर महबनगरणसिल्का	आयक्ताल्य, एकाल्मिक बाल विकार	न कक्ष, पोषण अभियान, इ.सेवा योजना, महाराष्ट्र राज्य, नवी मुंबई	्रज्ञानदीप
	महानगरपालिका, ठाणे सार्वनिक बांधकाय विषय	(Arr. comicdaraigadbhavan(h	पजल, सी.बी.बी. बेरागुर- ४२०६९४ gmail.com, तुरम्पनी तर, ०२२-२४५५६६८ विदा सूचना	विद्यामंदिर
योजनेअंतर्गत" ठणे २ डिकाणी गरार व पाका मानविग्यात येत आहे शासकीय, निमलासव	निविच सुपना त क्षेत्रात मुलकुत सोवीसुविधांचा विकास या व्हानगरवलिका क्षेत्रातील प्र.इ.२५ मधील विधिध हट करणे या एका कामावरील ऑन्सावंत निविधा ह. बारद निविधा प्रक्रियेच्ये आ निजिलाकरांवर वी.य. सार्ववनिक उडावन. स्वानिक संस्था	आয়ুলে, বজাইনক বাস ভিক্ত ব্যুৰ্ছ বা ৰায়ালয়াৰুবুন নানাজিন অধিযানাভাৰ্ব যাত্ৰখন্বাৰ, জিল্লোম্বৰ বাসিক আদি ৫ গুলেসিক দলুম্বৰকাৰ হ'-শিবিত্ৰ নাদাবিদ্যাত থাত আই.	बेक केत्राटी कर्मधारी) इस सेवा योजना, न्वरुप्रबट् राज्य, नवी अनुभवी जालनाविक रात्यवंकतुन "पोषण व प्रकल्पस्त्रमावर कताटी पथ्वतीने ६२९ वी नियुक्ती करणेलार्टी" ऑनलाईन पथ्वतीने माहिसी व ई-निशिया इन्यारेवज	PUL
टावाणेवाचन कार्यवाही निविदाकार्यना निविदा संकेतल्वळ http://mu ८.२.२०२४ पर्यंत उपल ८.२.२०२४ रोजी पर्यंत दि.९.२.२०२४ रोजी पर्यंत उपडण्यात येतील.	गईन नोगंची रह सर्वाचेवाक / काठना गार्तेल करप्राय आगो आहे अवका प्रसार का असा पराव नेगार साही, विभिन्ना मुप्तम वा निविद्य प्राप्त aubacendors.gov.in येथे हि.२१.२.२२२ गोहि. १.९.०० मार्जवाले लिखना संजयल येथे हि. १.९.०० मार्जवाले लिखना संजयल येथे प्रतिनियोगाओ प्रयुक्ती-गु२२१०/२०१३.२४ लाहो/ वाप्तमार्थका	https://mahatenders.gov.ID য বাবনাথ প্রচাই ই- নির্বিয়া গলৈছেঁল গণ, ০০ দানুল হি ওঁ/গেঁটো গেল- যা হাঁ-নির্বিটে মহেন্দাঁটো গেল- নাম্বজনী ৭৭.3০ বা, আবুলা নামাঁ: ঘাইলা নাগলো, থানোড প্রাল, ধাঁন আর্মাটায় অংশ্যার আনটা জাই,	<u>www.icch.gov.in</u> या संकेत स्थकावर पध्वतीने दि. २४/०९/२०२४ रोजी संकाळी	म. टा. प्रतिनिम्पी, मुंबई तव्य तालुक्यातील मौजे जेएम हवेली वेथे असलेल्य ज्ञानदीप नाप्यमिक विद्यामंडिट शाळेल्य
Pis visit our official v www.thanecity.gov.i	web-site तांगे महानगरपालिका, ताणे	DGIPR/2023-2024/7173	संसाधन राख, पोपर अभियान, प्रथाविलेवो, नहरराष्ट्र राज्य, नन्दी सुंबई,	आले. ज्ञानदीप माध्यमिक थिद्यामंदिर
च	भारत सरकार तभा अणु संशोधन केंद्र मिकीय पुन:चक्रण बोर्ड भेकीय पुन:चक्रण संयंज (निर्माण)		Indianoli	
राष्ट्रपतींच्या वतीने खाती	<u>प्रेस सुचना</u> आरपीली, एनजल्ही, बीएजरली वांच्याद्वारे भारताच्या ले कलाकरीता असा प्रकारच्या कलांचा हुरेसा अनुषच न ई-टेंडरिंग बद्धतीच्या माच्यमातून दोन भारांतून अर्थात	नोंदगीवृत्त कार्यालय: "इडिय-	यन ऑइल कॉर्पोरेशन लिपि [CIN – L23201MH1959GCI011388 1 अंद्रत मन", यो-9, उन्ते यहर जेप गॉ, 1 <b>ई-नेत सपरी:</b> investor@indenol.in	] बांद्र (पूर्ड), गुंबई - 400051
	संबंधित कामद्रपत्रे व भाग थी–विलीय बोलॉतुन ऑनलाईन	<b>ECOME</b> 022-2044/32/	१-मत अप्रतः investorsgandandun भागपारकांना सूचना	HIPGOLIE WIWIOG.COM
and a second second	निबिदा आमंत्रम सूचना		क्रिशन आणि प्रोटेक्शन फंडामध्ये सम	
निविदा संदर्भ क्र.	बीएआरली(टी)/एनआस्त्री/आवएनआस्टोसी/पीटीसी –१९३/२०२४/१२५ दिनांक: २३/०१/२०२४	कंपनी कारवदा 2013 मधील लखुदी या 1 त्रिपंत्रः) नियम 2018 खोबल वाचल्याजरू	इनवेस्टर एज्यूकेशन आणि प्रोटेक्शन कंड अयो ता, स्यात प्रेजीदेव्ही होगाऱ्या प्रदलानुसार, ही बूल्	रिटी (अक्सर्वेटेंग, ऑडीट, ट्रालक्सर आणि ज्या प्रवर्षित करण्याल येल आहे
कामाचे नाव	११३/ २४२४४/११२४ २४ १८११७: २३/ ४१/ ३२.४४ आरण्डास्पीली, एनआरबी, बीएआरसी, तारापूर देखील स्तॉक १०२९ आणि संबंधित क्षेत्रांची कमे पूर्व करणे.	रालम सात वर्ष दावा न वेझोल्या लाभांश चनग्वाचे, अधिनिधम, चेंद्र सरवारने के लाभांशाचर आणि त्वानंतर रत्लग 7 वर्ष व	संबंधी सर्व भारा इगवेरतर एउचुवेळग आणि उ हा दिने आहेत त्यानुसार, ज्वा समभाषांवज अगीने आहेर देखेल्या लाभाषांवर दाव देखेला तर होतील देखनीने हा चानडारवांना यारंवा	गेटेवथन पंऊल (आप्डेनिएम) हलांतरीत ली 2016–17 सालीच्या दुलऱ्या अंतरिम लाही त्यांचे भाग 27 04.2024 ताल्लेनंतर
निमिदेची पच्दन	https://eprocare.gov/in/eprocare/lepp मेरी अनिलाईन उ-टेडरिंग.	रोजी वैद्यक्तिक पत्रव्यवहार केला आहे तपशील आपल्या www.iocl.com	तसेच, ळंपनीने आवर्ड्मीएककडे हस्तात n बेबसाइटवर अपलोड केला आहे. भ	रीत होण्यास योग्व अभा भागवास्वतंत्रा त्राधारकांना विनती आहे की त्यांनी
अंदाजित मुल्प	रु. ७,४४,००,०००/- (रुपये सात कोटी भीरेपाळीस लाख फल)	https://iocl.com/transfer-of तपत्रिलाची खात्री करावी.	-equity ही देवसिंहरू पाहायी आपि आयई	पीएकला हत्त्वांशरील होमान्या भागांच्या

	निविदा आमंत्रण सूचना
वेदा संदर्भ व्र.	मीएआरली(टी)/एनआस्त्री/आवएनआस्त्रीली/पीटीर्स –११३/२०२४/१२४ दिनोळ:२३/०५/२०२४
सचे नाग	आयाएनआरवीसी, एनआरकी, बीएआरसी, तारापूर टेक्टील स्नॉक १०२ए जाणि संबंधित डेवांची कमे पूर्व करणे.
वि्ची पञ्चदत	https://eprocare.gov.in/eprocare/app নির্ব এলিবার্রন র-উরবিশ
जिव मुल्प	रु. ७,४४,००,०००/- (रुपये सात कोटी वीरेवाळीच लाध फक्त)
वेदा दस्तावेज शुल्क/ वेदा प्रक्रिया शुल्क	शून्य
करण्याचा कालावधी	योवीस (२४) कॅलेंडर महिने
वेदा दस्तारेषज दाख्न्नलोढ म्याच्या विनंतीच्या वारखा	दि: २९/०९/२०२४ <b>(०९.०० म</b> .) पासून
वेदा जॉनलाईन खेकरणाचा कालावची	दि: २९/०१/२०२४ (09.00 वा.) पासून ते दि. १७/०२/२०२४ (१७.३० वा.) पर्वत.
। হ এলিলাইন ব্যয়স্যাখী হয় ২ ইত	दि. २९/०२/२०२४ (१५.०० स.)
	विंट http://www.barc.gov.in/tenders पर क्रवेता संगर्क करा : (०२६२७) २९३६०७/२९३६३९. (सही/-) मरूक्य संवत्मक आईरणआपरीती. न्यकिति युत्त प्रक्रम बोर्ड, वीध्यारसी फिल्माच्या राष्ट्रप्रतीकर्षती व स्योच्या कर्तनि)

## लोणारच्या जागतिक 'थीम पार्क'बाबत निर्णय नाही दर्जासाठी हालचाली म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर

बाला दिली

'रेसकोर्स' विषयी रारकारची न्यायालयात भूमिका

# म टा. विश्रोष प्रतिनिधी, संबर्ड

पुरावणा विश्वातील लोपर संपर्धपाया समायंग 'जुगेयो'णा 'वर्गवंक तस्य प्रयो भग्ने जान आहं आता या प्राणगि अके वर्षपायुद्ध होत जात आत प्रया प्रावलगा हात्माची सुरु प्रारण्ड अस्पत्रा जान्छ, होठीहोत् स्वर प्रवलगा जान्छ, होठीहोत् स्वर प्रयोग नाष्ट्र होठी प्रार्थ पार्वलं प्रार्थणा नाष्ट्र होठीहोत् स्वर प्रार्थ प्रार्थणा नाष्ट्र होठीहोत् स्वर के प्रार्थ प्रार्थणा नाष्ट्र होठी स्वर के प्रार्थ प्रार्थणा नाष्ट्र होठी स्वर के प्रार्थना नाष्ट्र होठी प्रार्थ स्वर के प्रार्थना नाष्ट्र होठी कि प्रार्थ के प्रार्थ प्रार्थना के प्रार्थ कि प्रार्थना के प्रार्थन के प्रार्थना के प्रार्थना स्वर के प्रार्थना के प्रारंके के प्रार्थना के प्रारंका स्वाराध्य के प्रारंके के प्रार्थना के प्रारंका के प्रारंके के प्रार्थना के प्रारंका के प्रार्थना के प्रारंका के प्रार्थना के प्रारंका के प्रारंका के प्रार्थना के प्रारंका के के प्रातंका के प्रारंका के प्रारंका के के प् न्यायालयात माडला. 'संख्या हा विषय केवळ प्रस्तांवाच्या टण्प्यावर आहे. अद्याप अंतिम काही



# तीन दिट याचिका जाएनि प्रतासको एकारेक १२२ एक नकेनेक 'येन पाई' उपराज्य जा जाएनि प्रतासको एकारेक १३२ एक नकेनेक 'येन पाई' पाइंचरा पाइंचरा नातांकी जातव आत, अमे विधिध दावे पातन तंगरिंट पाईपक्ष उठ्या न्यावाराका उपराज हात्रा आहेत । २९ तिसेव २०१२ वे पी मुख्यमंत्री एकामा शिर, मारातिक आहुत्ता इन्वालांकि पातन न रेससंस वन्ताच्या रावेक केन्द्र तिंदा तर काकार्च अल्डान्स क्रियों के आत्म पाई प्रदेश क्रांगि रहाते त्यान मारात्रविक्त २२० एका वीम्लेसर येन पाई प्रतास क्रांगि ११ एकर क्रांगि आदल-प्रजान प्रतिक्रित मेंगे पाई प्रतास क्रांगि ११ एकर क्रांगि आदल-प्रजान प्रतिक्र नियेक स्वास्य आवोद्याचा कालाव्य के १९२३ और त्यान त्यां प्रतिक्र त्यान विद्या आत देवापान किया केवल क्रांग, त्यां १ दिवेस २३ स्वास विद्या निष्ठिका आहे आवोद्याचा केवल क्रांग्र आहे', रुसा प्राय पाईबाक्रमती केता अहे

भिषेत्र तो लगभ लगक हम्बाज प्रवास अपने स्वार्थिक प्रवास कार्य समयन ती है. प्रवास कार्य अपने कार्य मुम्बान के प्रवास कार्य समयन के प्रवास कार्य समयन के प्रवास के प्रवस के प्रवास के प्रवस के प्रवस के प्रवास के प्रवस के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवास के प्रवस के प्रवस के प्रवस के प्रवस के प्रवर के प्रवस के प्रवर के प्रवस के प्रवस के प्रवर के प्रवर के के प्रवस के प्रवर के प्रवस के के प्रवस

। शिवान कलेने होते शी

'विज्ञान कथेला सांस्कृतिक संदर्भ' असला, तथे तो बेजव्ज परांग प्रसर्व. स्वाचा दिव कुठेडरी ष्ट्र परुदुन देवावा एगगांद स्वातील फारण्मराश्वर्त्त हो सरसाहित जिल्लानक अस्तात ब्लाह तरोच ती अपूर्व अधावी सावते. तिथे कुठलॉगी सुच्च केला वेत ताती. ज्या सहित्य प्रकारण हो मुच्च नेथा के प्ले. शरी सेखक आनंद पैसास चोनी तमूह केले

## महाराष्ट्र 🕹 टाइम्स् जान हे वैशिवक आहे. त्याचे लेखक डॉ. बाळ फोंडके यांचे मत

पुष्टव गींद पत की कारहेरीएलन भग इस्तालेंत बालानंतर, आग मनांतर प्रम हेमले ताम आर्डी मन, आव्हेवेहत कविकवर्त्वपुर वत विकला तेलेल, जाताज़े अधिनेयाना मेलूत दिताना व्रत्नियेव ज्यावेव मनां वा संराज्य प्रेमलें प्रत्यालय पुंत्र अत्या त्या प्रत्या अत्य प्रत्य क्रिल देवालांगी का ति, सेलेप्रिंग टोन से, प्लॉट मार 31 जाने 32, पारामलिस्ता किंदिल, मानवालपुर, हेरावाद – 500 CS2, तंतर सी क. 1800004001, होंग einward AfgaRhateck.com 21 कार्यक व्यात

इंडियन ऑइल कॉपॉरेशन लिमिटेडकरिता रवाशरी/-

(कमल कुमार खालानी) रुपनी समिव

स्वळ : मुंबई दिनांक : 25 जानेवारी 2024

बडित्याला चाचकभिम्खता असायला हवी. तसेच विज्ञानातील प्रत्येक शब्दाला

हतो, सरंव शिवानतील मर्थने स्वयता ि शिवान सर्थने पार्वेन माठी माठ आवश्च २, सा आवार प्रस्य को कारो जादना वार्यायों तो ते ते दा प्राप्त कारी के सत्रे भूतन निया ते कोया कारोत पार्वे के से मत ते क्या सुधा कारते का पांत्र होने माठा कार्या, आवंध का से मत ते क्या सुधा कारते का पांत्र होने माठा कार्या, अंग्रेसी का सांताय पुराकापुराते मार्थित ता रावे ते व्या से के ना सांताय पुराकापुराते मार्थी साम शिवाय कार्या क्या सामग्रे प्राप्त कार्या के स्वार्य कार्या रावे व्या के के सामग्रे सामग्रे का सांताय पुराकापुराते मार्थेत माठा शिवाय कार्या क्या सामग्रे सामग्रे सामग्रे कारा कार्या या कार्या कार्या सामग्रे कार्या सामग्रे कार्या कार्या व स्वारा कार्या सामग्रे कार्या के सामग्रे कार्या कार्या कार्या सामग्रे सामग्रे कार्या के सामग्रे कार्या कार्या कार्या सामग्रे कार्या के सामग्रे



चेरपर हवेली या स्थालेने पाकीवादव्यत मोठे तुकसान होऊन शाळेले आर्थन दवनांच अवस्था झातों होते. अश्यतेजी साळेतील विद्यार्थ्यांना शिक्षण जायचे कोठे असा प्रश्न येणील संरथा जात्ल्यू भाउ जगा भरण भाषण प्रभाव प्राप्त भाषण धा विश्वय राजा हाता होता राषों प्र सामाधिक बार्गने न प्रसाद पूरण कुणा महादिव संप्राप्ता रिप्ते प्रधाय का महान्य राजा देख्या सुंदर्शनिव प्रसिद्ध उद्योयक गंदार गा रोपक युविक सामाधा तिवार न तक्या प्रेर्मुबरेतीन प्रसिद्ध प्रधाय संप्रत के किया मुनीव स्वारण प्राप्तार सीहता अधिक सोमाय धा पालार सीहता अधिक सोमाय धा प्रयोजस्याधिकर्य सुनिव स्वारण्य, सामस्येतन कृषण महादिक, संसरे प्रेर्मुक्या सीहता सुनिव स्वारण्य, प्रसारे सीहता महादा स्वार अध्यात स्वार साम्य स्वारण संसदित रोपरेचे प्रदारितारों, सिहान कर्मनारा सारेयने प्रदारकारों, सिहान कर्मनारा व शिक्षक वयांला पडाला होता. त्यांनी तल. ज्ञानदीप माध्यमिक थिद्यामंदिर,

Fiften men Taska Natio Niteri Ra, git Etite enfrer ann, min kennen sinnen anfre innen sinnen anfre sinn norden inn sinn sin k. A. a. A. alte no sediering antieren alte A. a. A. alte no sediering antieren alter alter alter sinn son sediering antieren alter alter sinn son sediering antieren alter alter alter antieren alter alter alter alter alter antieren alter alter alter alter alter alter antieren alter alter alter alter alter alter antieren alter a where the start of the section of the start पार्थवालय कर कामके प्राप्त के जादोर की कामी कामने 2014 हुए आपी उत्पत्रक राजे ( कामी ), तेविल देवपोलांचेव की बात से दिवा 2024 का से बबती पूर्व तो साकेवा योव व्यावराजनाति का के बार 2016 - 17 सात्रिया के क बात दिवा 2024 का से बबती पूर्व तो साकेवा योव व्यावराजनाति का के बार 2016 - 17 सात्रिया के क बातांचता दुवाना के बार कामेजन कर तात्रा, पात्रजी अर्दानिराजा कर इनामेलांचे (क्रांट की दिवा - 17 सात्रिया के बातांचता दुवाना के बार के बार के बार के सिता प्राप्ता का नहीं तर्व करने, को बार की दुवाना चेते प्राप्त के का बातांचता दुवाना कामके 2013 2024 क्या दिवादा प्राप्ता का नहीं तर्व करने, को बार दिवा प्राप्ति को बिद्ध न्युवा के स्वात्र कामजा सामकामकाकों की कार्या पात्र कार्यांग्रिक इतिवादा का हाता का प्राप्त का क्रमित नहीं का प्राप्त का के कार आजी के हरातंतर व्यावस्थान तर्वांग्र कार्यांग्र के स्वात्रकों कु प्राप्त का मामचन्द्र त्यांग्र को व्याव की व्याव कारणाता दी पात्र प्राप्त ना नहीं, बार क्रमिल क्राप्तिक के किवारकों के स्वात्रकों के स्वात्र के क्रम का प्राप्त के हरातंतर व्यावस्थान तर सामक के सालले कि प्राप्त के सान्त्रता के बार का क्रम वाली के आधे का प्राप्त का प्राप्त कि सान कारणा ना ना कि ता कार्या पात्र के सानले की का का का का का के बार के सामक की का का क्रम का का का प्राप्त के सान कारणा ना ना का कारणात के सामक के सालले के कार का का का का की का ता के का का का का का का का का का

# मध्य रेल्वे इं-निविदा सूचना उप मुख्य स्टेवेवल ज्यान्यक कार्यात्रक, वि विंद यज्ज्यू बकेगीर, सट्रेग, बुंबर्ड - १०० ०१९, निविदा सूचना क. सीवज्ञन्युई/ एपवीएन/८५,२६३२८४७/२०२४, वर्तीये प्रार्थ्वीएन/८५,२६३२८४७/२०२४, वर्तीये भारति का स्वाप्त कि स्वाप्त के साम से सिमा के साम के सा साम के स

extitution of an and the second secon

तज्ञ तातुम्पातील मौने जेएपर हवेली येथे अस्लेल्य ज्ञानदीप माप्पमिक विद्यामंदिर शाळेल्या इमारतीये जूतनीकरण करण्यात आले असून त्याचे वद्याटन स्वयन्छ जिल्ह्याचे पोलीस अधीक्षक सोमजाथ